

गुरु नानक कॉलेज, धनबाद

राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा नाट्य रूपांतर के माध्यम से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन।

आज दिनांक 12/02/ 2022 को गुरु नानक कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के सेमेस्टर 1,2 और 5 के छात्र छात्राओं ने नाट्य रूपांतर के माध्यम से मॉक पार्लियामेंट, मुख्य रूप से लोकसभा की कार्यवाही को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संसद जैसी पवित्र संस्था मुख्य रूप से लोकसभा की गरिमा का प्रदर्शन करना था। साथ ही इस कार्यक्रम के द्वारा छात्र-छात्राओं को संसदीय कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। इसी क्रम में संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया एवं सरकार एवं विपक्ष की भूमिका का छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में, नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, प्रश्नकाल, विधेयक का प्रस्तुतीकरण और प्रधानमंत्री द्वारा लोक सभा को संबोधित करना आदि पहलुओं का प्रदर्शन किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने बखूबी से सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 30 से 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और कार्यक्रम में लगभग 100 से भी ज्यादा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे

कार्यक्रम में महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष सरदार आर एस चहल सर, महाविद्यालय के सचिव सरदार दिल जॉन सिंह गेवाल सर और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद की उपस्थिति और उनका रचनात्मक सहयोग बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम से इतने प्रभावित हुए और कार्यक्रम इतना जीवंत था कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे तो लग रहा है कि यही असली संसद है। महाविद्यालय के सचिव भी छात्रों के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने छात्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रोफेसर अमरजीत सिंह, प्रोफेसर दीपक कुमार, प्रोफेसर संजय सिन्हा ,डॉक्टर सरिता मदेशिया, प्रोफेसर दलजीत सिंह, प्रोफेसर पीयूष अग्रवाल, प्रोफेसर साधना, प्रोफेसर विश्वेश्वरी भट्टाचार्य, प्रोफेसर नमिता कुमारी, प्रोफेसर किरण सिंह, प्रोफेसर पिकी कुमारी, प्रोफेसर कुमारी नीतू, प्रोफेसर सुचित्रा कुमारी, प्रोफेसर और अर्नव सारखेल, प्रोफेसर शिवांगी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना मालखंडी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीता ओझा ने दिया।